



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रतिभार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 351]  
No. 351]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 27, 1984/श्रावण 5, 1906  
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 27, 1984/SRAVANA 5, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1984

का. आ. 533(अ) :—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधि-  
नियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का  
प्रयोग करते हुए, कागज (उत्पादन का विनियमन) आदेश, 1978,  
का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती  
है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कागज (उत्पादन का  
विनियमन) संशोधन आदेश, 1984 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. कागज (उत्पादन का विनियमन) आदेश, 1978 के खण्ड  
10 में,—

(1) उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड  
रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) ऐसे विनिर्माता, जिनकी कागज और कागज के  
गत्ते के विनिर्माण की प्रतिष्ठापित क्षमता प्रति  
वर्ष 24,000 टन से अधिक नहीं है और जिनके  
पास बांस या लकड़ी के गूदे बनाने के लिए  
कोई संलग्न संयंत्र भी नहीं है।”;

(2) उपखण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण  
उत्प्रेषित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण . इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए प्रतिष्ठा-  
पित क्षमता का अवधारण, विनिर्माता द्वारा या  
उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों में से  
पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कागज और कागज के

गसों की सभी किस्मों की निकालियों की कुल मात्रा को ध्यान में रखकर किया जा सकेगा ।”

[फा. सं. 14(1)/84-कागज]

वी. के. चानना, संयुक्त सचिव

टिप्पणी

मूल आदेश अधिसूचना सं. का. आ. 169(अ), तारीख, 8 मार्च, 1978 में प्रकाशित हुआ था,

तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए हैं

1. अधिसूचना सं. का. आ. 583(अ) ता. 16 अक्टूबर, 1979
2. अधिसूचना सं. का. आ. 787(अ) ता. 9 नवम्बर, 1982
3. अधिसूचना सं. का. आ. 286(अ) ता. 11 अप्रैल, 1983

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

### ORDER

New Delhi, the 27th July, 1984

S.O. 533(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Paper (Regulation of Production) Order, 1978, namely :—

1. (1) This Order may be called the Paper (Regulation of Production) Amendment Order, 1984.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Paper Regulation of Production Order, 1978, in clause 10,—

(i) for sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

“(a) manufacturers whose installed capacity for the manufacture of paper and paper board is not more than 24,000 tonnes per annum and also not having a plant attached thereto for making bamboo or wood pulp.”

(ii) after sub-clause (a), the following Explanation shall inserted, namely :—

“Explanation.—

For the purposes of this clause, the installed capacity may be determined having regard to the total quantity of clearances of all varieties of paper and paper boards in the preceding financial year, by or on behalf of a manufacturer from one or more factories”.

[File No. 14(1)/84-Paper]

V. K. CHANANA, Jt. Secy.

NOTE.—Principal Order published vide Notification No. S.O. 169(E), dated the 8th March, 1978.

Subsequently amended by :—

1. Notification No. S.O. 583(E), dated the 16th October, 1979.
2. Notification No. S.O. 787(E), dated the 9th November, 1982.
3. Notification No. S.O. 286(E), dated the 11th April, 1983.